

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

25 अप्रैल 2019

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया ने बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने कक्षा बारहवीं:नियमित: आर्ट्स, काॅमर्स और साइंस की परीक्षाओं के नतीजे कल घोषित कर दिए। इन परीक्षाओं के संपन्न होने के 27 दिन के भीतर ही नतीजे जारी करके, जामिया ने केन्द्रीय या नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन से काफी पहले ऐसा कर दिखाया।

ये नतीजे जामिया की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जामिया के कंट्रोलर ऑफ एक्जामिनेशन ने रिकार्ड समय में ये नतीजे घोषित किए हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रो नजमा अख्तर के नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने पारदर्शी, कुशल एवं छात्रोन्मुख तथा समयबद्ध परीक्षाएं कराने पर ज़ोर दिया है।

प्रो अख्तर ने सफलता पाने वाले छात्रों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे राष्ट्र निर्माण में सार्थक भूमिका निभा कर अपने शिक्षण संस्थान का नाम रोशन करेंगे।

कक्षा बारहवीं की परीक्षा में कुल 913 छात्रों ने हिस्सा लिया जिनमें 373 छात्राएं और 540 छात्र हैं। इनमें सफल छात्राओं और छात्रों का प्रतिशत क्रमशः 84.3 एवं 76.2 रहा।

आर्ट्स में सना खैर और औसाफ अय्यूब 94.6 प्रतिशत के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे। मुज़ना जावेद 93.8 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर और मुहम्मद अज़मतुल्लाह सादिक 92.8 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर आए।

साइंस में 93.8 प्रतिशत के साथ विनायक सिंह ने प्रथम आए। 93.6 प्रतिशत के साथ सोहा खान दूसरे और 93.2 प्रतिशत के साथ मुहम्मद अताउल्लाह तीसरे स्थान पर रहे।

काॅमर्स में 94 प्रतिशत पाकर सरताज अहमद पहले, 92.6 प्रतिशत के साथ मुहम्मद आफताब दूसरे और 91 प्रतिशत के साथ सुरय्या तीसरे स्थान पर आए।

कंट्रोलर ऑफ एक्ज़ामिनेशन, डा ए.ए.ए. फैज़ी ने परीक्षाओं के नतीजे इतने कम समय में घोषित करने के लिए अपनी कर्मठ टीम का धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी कहा कि कक्षा बारहवरी:प्राइवेट: के नतीजे भी जल्द ही वेबसाइट पर आ जाएंगे।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक